



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १०, अंक ६९]

गुरुवार, ऑक्टोबर ३, २०२४/आश्विन ११, शके १९४६

[पृष्ठे ३१, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ९३

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली 110 001, तारीख 1 अक्टूबर, 2024
9 आश्विन, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/एम एच-एल ए/2024 (1).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं 434/एम टी-एल ए/2019 (1), दिनांक 18 फरवरी 2019 के अधिक्रमण में भारत निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से एतद्वारा, निचे दी गई तालिका के स्तंभ 2 में यथा-विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के उक्त तालिका के स्तंभ 1 में यथा-विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है ;

तालिका

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सं. एवं नाम	रिटर्निंग अधिकारी
1	2
1 – अक्कलकुवा (अ.ज.जा.)	सहायक कलक्टर एवं सब-डिवीजनल अधिकारी, तालोदा
2 – शहादा (अ.ज.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, शहादा
3 – नन्दुरबार (अ.ज.जा.)	सहायक कलक्टर एवं सब-डिवीजनल अधिकारी, नन्दुरबार
4 – नवापुर (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलक्टर (ईजीएस), नन्दुरबार
5 – साक्री (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलक्टर (ईजीएस), धुले
6 – धुले ग्रामीण	सब-डिवीजनल अधिकारी, धुले
7 – धुले शहर	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन), नं. 1, धुले
8 – सिन्दखेडा	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन), एमआईपी, धुले

1	2
9 - शिरपूर (अ.ज.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, शिरपूर
10 - चोपडा (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलक्टर (पुनर्वास), जलगांव
11 - रावेर	सब-डिवीजनल अधिकारी, फैजपुर
12 - भुसावल (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, भुसावल
13 - जलगांव शहर	सब-डिवीजनल अधिकारी, जलगांव
14 - जलगांव ग्रामीण	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन नं. 1) अपर तापी परियोजना (हतनूर), जलगांव
15 - अमलनेर	सब-डिवीजनल अधिकारी, अमलनेर
16 - एरन्दोल	सब-डिवीजनल अधिकारी, एरन्दोल
17 - चालीसगांव	सब-डिवीजनल अधिकारी, चालीसगांव
18 - पाचोरा	सब-डिवीजनल अधिकारी, पाचोरा
19 - जामनेर	डिप्टी कलक्टर (ईजीएस), जलगांव
20 - मुक्ताईनगर	डिप्टी कलक्टर (राजस्व), जलगांव
21 - मलकापुर	सब-डिवीजनल अधिकारी, मलकापुर
22 - बुलढाणा	सब-डिवीजनल अधिकारी, बुलढाणा
23 - चिखली	विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी (एम.पी.), बुलढाणा
24 - सिंदखेड राजा	सब-डिवीजनल अधिकारी, सिंदखेड राजा
25 - मेहकर (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, मेहकर
26 - खामगांव	सब-डिवीजनल अधिकारी, खामगांव
27 - जलगांव (जमोद)	सब-डिवीजनल अधिकारी, जलगांव (जमोद)
28 - अकोट	सब-डिवीजनल अधिकारी, अकोट
29 - बालापुर	सब-डिवीजनल अधिकारी, बालापुर
30 - अकोला पश्चिम	डिप्टी कलक्टर (राजस्व), अकोला
31 - अकोला पूर्व	सब-डिवीजनल अधिकारी, अकोला

1	2
32 - मुर्तिजापुर (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, मुर्तिजापुर
33 - रिसोड	सब-डिवीजनल अधिकारी, वाशिम
34 - वाशिम (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, मंगरूलपीर
35 - करंजा	सब-डिवीजनल अधिकारी, करंजा
36 - धामणगांव रेलवे	सब-डिवीजनल अधिकारी, चान्दुर रेलवे
37 - बडनेरा	डिप्टी कलक्टर (राजस्व), अमरावती
38 - अमरावती	सब-डिवीजनल अधिकारी, अमरावती
39 - तिवसा	सब-डिवीजनल अधिकारी, तिवसा-भातकुली
40 - दर्यापुर (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, दर्यापुर
41 - मेलघाट (अ.ज.जा.)	सहायक कलक्टर एवं सब-डिवीजनल अधिकारी, धारणी
42 - अचलपुर	सब-डिवीजनल अधिकारी, अचलपुर
43 - मोर्शी	सब-डिवीजनल अधिकारी, मोर्शी
44 - आर्वी	सब-डिवीजनल अधिकारी, आर्वी
45 - देवली	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन), सामान्य, वर्धा
46 - हिंगणघाट	सब-डिवीजनल अधिकारी, हिंगणघाट
47 - वर्धा	सब-डिवीजनल अधिकारी, वर्धा
48 - काटोल	सब-डिवीजनल अधिकारी, काटोल
49 - सावनेर	सब-डिवीजनल अधिकारी, सावनेर
50 - हिंगणा	सब-डिवीजनल अधिकारी, नागपुर ग्रामीण
51 - उमरेड (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, उमरेड
52 - नागपुर दक्षिण पश्चिम	सब-डिवीजनल अधिकारी, नागपुर शहर
53 - नागपुर दक्षिण	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन), पंच परियोजना नं. 2, नागपुर
54 - नागपुर पूर्व	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन), कन्होली नाला परियोजना, नागपुर

1	2
55 - नागपुर मध्य	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन), वी.आई.डी.सी नं. 1, नागपुर
56 - नागपुर पश्चिम	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन), पेंच परियोजना नं. 1, नागपुर
57 - नागपुर उत्तर (अ.जा.)	डिप्टी कलक्टर (ईजीएस), नागपुर
58 - कामठी	मव-डिवीजनल अधिकारी, मौदा
59 - रामटेक	मव-डिवीजनल अधिकारी, रामटेक
60 - तुमसर	मव-डिवीजनल अधिकारी, तुमसर
61 - भण्डारा (अ.जा.)	मव-डिवीजनल अधिकारी, भण्डारा
62 - साकोली	मव-डिवीजनल अधिकारी, साकोली
63-अर्जुनी-मोरगांव (अ.जा.)	मव-डिवीजनल अधिकारी, अर्जुनी मोरगांव
64 - तिरोरा	मव-डिवीजनल अधिकारी, तिरोरा
65 - गोंदिया	मव-डिवीजनल अधिकारी, गोंदिया
66 - आमगांव (अ.ज.जा.)	मव-डिवीजनल अधिकारी, देवरी
67 - आरमोरी (अ.ज.जा.)	सहायक कलक्टर एवं मव-डिवीजनल अधिकारी, देसाईगंज
68 - गडचिरोली (अ.ज.जा.)	सहायक कलक्टर एवं मव-डिवीजनल अधिकारी, गडचिरोली
69 - अहेरी (अ.ज.जा.)	सहायक कलक्टर एवं मव-डिवीजनल अधिकारी, अहेरी
70 - राजूरा	मव-डिवीजनल अधिकारी, राजूरा
71 - चन्द्रपुर (अ.जा.)	मव-डिवीजनल अधिकारी, चन्द्रपुर
72 - बल्लारपुर	मव-डिवीजनल अधिकारी, मूल
73 - ब्रह्मपूरी	मव-डिवीजनल अधिकारी, ब्रह्मपूरी
74 - चिमुर्	मव-डिवीजनल अधिकारी, चिमुर्
75 - वारोरा	मव-डिवीजनल अधिकारी, वारोरा
76 - वणी	मव-डिवीजनल अधिकारी, वणी, जिला यवतमाल
77 - रालेगांव (अ.ज.जा.)	मव-डिवीजनल अधिकारी, रालेगांव

1	2
78 - यवतमाल	सब-डिवीजनल अधिकारी, यवतमाल
79 - दिग्रस	सब-डिवीजनल अधिकारी, दारव्हा
80 - आर्णी (अ.ज.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, केलापुर
81 - पुसद	सब-डिवीजनल अधिकारी, पुसद
82 - उमरखेड (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, उमरखेड
83 - किनवट	सहायक कलक्टर एवं सब-डिवीजनल अधिकारी, किनवट
84 - हदगांव	सब-डिवीजनल अधिकारी, हदगांव
85 - भोकर	सब-डिवीजनल अधिकारी, भोकर
86 - नांदेड उत्तर	डिप्टी कलक्टर (ईजीएस), नांदेड
87 - नांदेड दक्षिण	सब-डिवीजनल अधिकारी, नांदेड
88 - लोहा	सब-डिवीजनल अधिकारी, कन्धार
89 - नायगांव	सब-डिवीजनल अधिकारी, धर्माबाद
90 - देगलुर (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, बिलोली
91 - मुखेड	सब-डिवीजनल अधिकारी, देगलुर
92 - बसमत	सब-डिवीजनल अधिकारी, बसमत
93 - कलमनुरी	सब-डिवीजनल अधिकारी, कलमनुरी
94 - हिंगोली	सब-डिवीजनल अधिकारी, हिंगोली
95 - जिनतूर	सब-डिवीजनल अधिकारी, सैलू
96 - परभणी	सब-डिवीजनल अधिकारी, परभणी
97 - गंगाखेड	सब-डिवीजनल अधिकारी, गंगाखेड
98 - पाथरी	सब-डिवीजनल अधिकारी, पाथरी
99 - परतुर	सब-डिवीजनल अधिकारी, परतुर
100 - घनसावंगी	सब-डिवीजनल अधिकारी, अम्बड

1	2
101 - जालना	सब-डिवीजनल अधिकारी, जालना
102 - बदनापुर (अ.जा.)	डिप्टी कलक्टर एवं भूमि-अर्जन अधिकारी, (एमआईडब्ल्यू), जालना
103 - भोकरदन	सब-डिवीजनल अधिकारी, भोकरदन
104 - सिल्लोड	सब-डिवीजनल अधिकारी, सिल्लोड
105 - कन्नड	सब-डिवीजनल अधिकारी, कन्नड
106 - फुलमबरी	विशेष डिप्टी कलक्टर एवं बंदोबस्त अधिकारी, छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र, छत्रपति संभाजीनगर
107 - औरंगाबाद मध्य	सब-डिवीजनल अधिकारी, औरंगाबाद
108 - औरंगाबाद पश्चिम (अ.जा.)	डिप्टी कलक्टर (ईजीएस) कलक्टर का कार्यालय, औरंगाबाद
109 - औरंगाबाद पूर्व	डिप्टी कलक्टर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, औरंगाबाद
110 - पैठण	सब-डिवीजनल अधिकारी, पैठण-फुलमबरी
111 - गंगापुर	विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी, औरंगाबाद
112- वैजापुर	सब-डिवीजनल अधिकारी, वैजापुर
113 - नांदगांव	डिप्टी कलक्टर (ईजीएस), नाशिक
114 - मालेगांव मध्य	सब-डिवीजनल अधिकारी, मालेगांव
115- मालेगांव बाहरी	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन), नं. 2, नाशिक
116 - बागलाण (अ.ज.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, बागलाण
117 - कलवण (अ.ज.जा.)	सहायक कलक्टर एवं सब-डिवीजनल अधिकारी, कलवण सब-डिवीजन, जिला नाशिक
118 - चाँदवड	सब-डिवीजनल अधिकारी, चाँदवड
119 - येवला	सब-डिवीजनल अधिकारी, येवला
120 - सिन्नर	डिप्टी कलक्टर (अर्जन) वैतरणा जलविद्युत परियोजना, नाशिक
121 - निफाड	सब-डिवीजनल अधिकारी, निफाड
122 - दिन्डोरी (अ.ज.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, दिन्डोरी
123 - नाशिक पूर्व	डिप्टी कलक्टर (प्रशासन), नाशिक

1	2
124 – नाशिक मध्य	सहायक कलक्टर एवं सब-डिवीजनल अधिकारी, नाशिक सब-डिवीजन, जिला नाशिक
125 – नाशिक पश्चिम	जिला पुनर्वास अधिकारी, नाशिक
126 – देवलाळी (अ.जा.)	डिप्टी कलक्टर एवं विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी, (एनएचपी), नाशिक
127 – इगतपुरी (अ.ज.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, इगतपुरी
128 – डहाणु (अ.ज.जा.)	सहायक कलक्टर एवं सब-डिवीजनल अधिकारी, डहाणु सब-डिवीजन, जिला पालघर
129 – विक्रमगड (अ.ज.जा.)	सहायक कलक्टर एवं सब-डिवीजनल अधिकारी, जव्हार सब-डिवीजन, जिला पालघर
130 – पालघर (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलक्टर, भूमि-अर्जन सूर्या परियोजना डहाणु
131 – बोईसर (अ.ज.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, पालघर
132 – नालासोपारा	सब-डिवीजनल अधिकारी, वसई
133 – वसई	सब-डिवीजनल अधिकारी, वाडा
134 – भिवंडी ग्रामीण (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलक्टर (ईजीएस), कलक्टर का कार्यालय, ठाणे
135 – शहापुर (अ.ज.जा.)	उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं स्टाम्प उप नियंत्रक, कोंकण डिवीजन, ठाणे
136 – भिवंडी पश्चिम	क्षेत्रीय अधिकारी, एमआईडीसी ठाणे-1, ठाणे
137 – भिवंडी पूर्व	सब-डिवीजनल अधिकारी, भिवंडी
138 – कल्याण पश्चिम	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन), मेट्रो सेंटर नं. 3, ठाणे
139 – मुरबाड	सहायक आयुक्त (बीसी सेल), आयुक्त का कार्यालय, कोंकण डिवीजन, कोंकण भवन, नवी मुंबई
140 – अम्बरनाथ (अ.जा.)	डिप्टी कलक्टर, एसआरए-2 ठाणे
141 – उल्हासनगर	सब-डिवीजनल अधिकारी, उल्हासनगर
142 – कल्याण पूर्व	डिप्टी कलक्टर एवं डिप्टी कमिश्नर (एस्टेट), कल्याण-डोम्बीवली नगर निगम
143 – डोम्बीवली	डिप्टी कलक्टर, एसआरए-1, ठाणे
144 – कल्याण ग्रामीण	सब-डिवीजनल अधिकारी, कल्याण
145 – मीरा भाईंदर	क्षेत्रीय अधिकारी, एमआईडीसी, ठाणे-2
146 – ओवला – माजीवडा	विशेष कार्य अधिकारी (सीलिंग), कोंकण डिवीजन

1	2
147 - कोपरी-पचपाखडी	डिप्टी कलक्टर (पुनर्वास), कलेक्ट्रेट, ठाणे
148 - ठाणे	सब-डिवीजनल अधिकारी, ठाणे
149 - मुम्ना-कलवा	डिप्टी कलक्टर एवं प्रबंधक (नगर सेवा-III), सिडको, बेलापुर, नवी मुंबई
150 - ऐरोली	डिप्टी कलक्टर (अर्जन) कोंकण डिवीजन, कमिश्नर का कार्यालय, नवी मुंबई
151 - बेलापुर	डिप्टी कलक्टर, एसआरए-3 ठाणे
152 - बोरीवली	डिप्टी कलक्टर (अतिक्रमण/निराकरण), बोरीवली - 1
153 - दहिसर	सक्षम प्राधिकारी - 7, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, मुंबई
154 - मागाठणे	सक्षम प्राधिकारी - 2, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, मुंबई
155 - मुलुंड	डिप्टी कलक्टर (अतिक्रमण/निराकरण) मुलुंड
156 - विक्रोली	डिप्टी कलक्टर (अतिक्रमण/निराकरण), भान्डुप
157 - भान्डुप पश्चिम	डिप्टी कलक्टर (अतिक्रमण/निराकरण), कुर्ला - 1
158 - जोगेश्वरी पूर्व	सक्षम प्राधिकारी - 3, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, मुंबई
159 - दिन्डोशी	स्टाम्प कलक्टर, कुर्ला
160 - कान्दीवली पूर्व	स्टाम्प कलक्टर, बोरीवली
161 - चारकोप	सक्षम प्राधिकारी - 5, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, मुंबई
162 - मलाड पश्चिम	महाप्रबंधक (विकास), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, मुंबई उपनगरीय जिला
163 - गोरेगांव	महाप्रबंधक (भूमि-अर्जन), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, मुंबई उपनगरीय जिला

1	2
164 - वरसोवा	अपर जिला डिप्टी कलक्टर, मुंबई उपनगरीय जिला
165 - अन्धेरी पश्चिम	रेजिडेंट डिप्टी कलक्टर (अतिक्रमण/निराकरण), पश्चिमी उपनगर
166 - अन्धेरी पूर्व	सक्षम प्राधिकारी - 6, झुगगी पुनर्वास प्राधिकरण, मुंबई
167 - विलेपार्ले	डिप्टी कलक्टर - 4, मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण
168 - चान्दीवली	सब-डिवीजनल अधिकारी (पूर्वी उपनगर), मुंबई उपनगरीय जिला
169 - घाटकोपर पश्चिम	सक्षम प्राधिकारी - 4, झुगगी पुनर्वास प्राधिकरण, मुंबई
170 - घाटकोपर पूर्व	डिप्टी कलक्टर (अतिक्रमण/निराकरण), घाटकोपर
171 - मानखुर्द शिवाजी नगर	स्टाम्प कलक्टर, अंधेरी
172 - अणुशक्ति नगर	सक्षम प्राधिकारी - 8, झुगगी पुनर्वास प्राधिकरण, मुंबई
173 - चेम्बूर	डिप्टी कलक्टर (अतिक्रमण/निराकरण), चेम्बूर - 1
174 - कुर्ला (अ.जा.)	डिप्टी कलक्टर - 2, मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण
175 - कलीना	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन) नं. 7, मुंबई एण्ड मुंबई उपनगरीय
176 - वान्द्रे पूर्व	विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी नं. 4, मुंबई उपनगरीय जिला
177 - वान्द्रे पश्चिम	सब-डिवीजनल अधिकारी (पश्चिमी उपनगर), मुंबई उपनगरीय जिला
178 - धारावी (अ.जा.)	स्टाम्प कलक्टर प्रवर्तन 2, सेंट्रल लाइब्रेरी, ग्राउंड फ्लोर, फोर्ट, मुंबई-400001
179 - सायन कोलीवाडा	डिप्टी कलक्टर (अतिक्रमण/निराकरण), मुंबई सिटी जिले का धारावी जोन

1	2
180 – वडाला	रेजिडेंट डिप्टी कलक्टर (अतिक्रमण/निराकरण), पूर्वी उपनगर, चर्चगेट, मुंबई-400020
181 - माहिम	डिप्टी कलक्टर (अतिक्रमण/निराकरण), कोलाबा डिवीजन, चौथी मंजिल, डीडी बिल्डिंग, ओल्ड कस्टम हाउस, एस.बी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
182 – वरली	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन), मुंबई सिटी, तीसरी मंजिल, ओल्ड कस्टम हाउस, एस.बी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
183 – शिवडी	डिप्टी कलक्टर (सामान्य प्रशासन) मुंबई सिटी जिला, मुंबई-400001
184 – बायखला	स्टाम्प कलक्टर, मुंबई सिटी, तीसरी मंजिल, ओल्ड कस्टम हाउस, एस.बी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
185 – मलबार हिल	स्टाम्प कलक्टर (प्रवर्तन-1) सेंट्रल लाइब्रेरी, भूतल, फोर्ट मुंबई-1
186 – मुम्बादेवी	डिप्टी कलक्टर (मुंबई शहर), झुग्गी पुनर्विकास प्राधिकरण वांद्रा (पूर्व), मुंबई
187 – कोलाबा	डिप्टी कलक्टर, एनएसईएल, मुंबई
188 – पनवेल	सब-डिवीजनल अधिकारी, पनवेल
189 – करजत	सब-डिवीजनल अधिकारी, करजत
190 – उरण	डिप्टी कलक्टर एवं विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी, मेट्रो सेंटर नं. 1, उरण
191 – पेण	सब-डिवीजनल अधिकारी, पेण
192 – अलिबाग	सब-डिवीजनल अधिकारी, अलिबाग
193 – श्रीवर्धन	सब-डिवीजनल अधिकारी, श्रीवर्धन
194 – महाड	सब-डिवीजनल अधिकारी, महाड
195 – जुन्नर	डिप्टी कलक्टर एवं विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी नं. 4, पुणे
196 – आम्बेगांव	सब-डिवीजनल अधिकारी, जुन्नर-आम्बेगांव

1	2
197 - खेड आलन्दी	सब-डिवीजनल अधिकारी, खेड (राजगुरुनगर)
198 - शिरूर	डिप्टी कलक्टर एवं विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी नं. 3, पुणे
199 - दौंड	सब-डिवीजनल अधिकारी, दौंड
200 - इन्दापुर	डिप्टी कलक्टर एवं विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी नं. 1, पुणे
201 - बारामती	सब-डिवीजनल अधिकारी, बारामती, सब-डिवीजन बारामती
202 - पुरन्दर	सब-डिवीजनल अधिकारी, पुरन्दर
203 - भोर	सब-डिवीजनल अधिकारी, भोर
204 - मावल	सब-डिवीजनल अधिकारी, मावल-मुलशी
205 - चिंचवड	उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पिंपरी-चिंचवड नगर निगम
206 - पिंपरी (अ.जा.)	उपायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी एसआरए-2 पुणे एवं पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे
207 - भोसरी	डिप्टी कलक्टर एवं विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी नं. 19, पुणे
208 - वडगांव शेरी	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम नं. 1 (एमआईडीसी), पुणे
209 - शिवाजी नगर	डिप्टी कलक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी एसआरए नं. 1, पुणे एवं पिंपरी चिंचवड क्षेत्र
210 - कोथरूड	डिप्टी कलक्टर एवं विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी नं. 22, पुणे
211 - खडकवासला	सब-डिवीजनल अधिकारी, हवेली, सब डिवीजन पुणे
212 - पर्वती	डिप्टी कलक्टर यूएलसी, पुणे
213 - हडपसर	डिप्टी कलक्टर एवं जिला पुनर्वास अधिकारी, पुणे
214 - पुणे छावनी (अ.जा.)	डिप्टी कलक्टर एवं विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी नं. 26, पुणे
215 - कसबा पेठ	सब-डिवीजनल अधिकारी, पुणे, सब डिवीजन पुणे

1	2
216 - अकोले (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलक्टर (ईजीएस), अहमदनगर
217 - संगमनेर	सब-डिवीजनल अधिकारी, संगमनेर
218 - शिरडी	सब-डिवीजनल अधिकारी, शिरडी
219 - कोपरगांव	विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी, नं. 3, अहमदनगर
220 - श्रीरामपुर (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, श्रीरामपुर
221 - नेवासा	विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी, नं. 14, अहमदनगर
222 - शेवगांव	सब-डिवीजनल अधिकारी, पाथर्डी
223 - राहुरी	डिप्टी कलक्टर (पुनर्वास), अहमदनगर
224 - पारनेर	सब-डिवीजनल अधिकारी, श्रीगोन्दा-पारनेर
225 - अहमदनगर शहर	सब-डिवीजनल अधिकारी, अहमदनगर
226 - श्रीगोन्दा	डिप्टी कलक्टर भूमि अर्जन, नं. 15, अहमदनगर
227 - करजत जामखेड	सब-डिवीजनल अधिकारी, करजत
228 - गेवराई	डिप्टी कलक्टर भूमि-अर्जन लघु सिंचाई, वीड
229 - माजलगांव	सब-डिवीजनल अधिकारी, माजलगांव
230 - वीड	सब-डिवीजनल अधिकारी, वीड
231 - आष्टी	सब-डिवीजनल अधिकारी, पाटोदा
232 - कैज (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, अम्बाजोगाई
233 - परली	सब-डिवीजनल अधिकारी, परली
234 - लातूर ग्रामीण	डिप्टी कलक्टर (पुनर्वास), कलक्टर का कार्यालय, लातूर
235 - लातूर शहर	सब-डिवीजनल अधिकारी, लातूर
236 - अहमदपुर	सब-डिवीजनल अधिकारी, अहमदपुर
237 - उदगीर (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, उदगीर
238 - निलंगा	सब-डिवीजनल अधिकारी, निलंगा

1	2
239 – औसा	सब-डिवीजनल अधिकारी, औसा-रेनापुर
240 – उमरगा (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, उमरगा
241 – तुलजापुर	सब-डिवीजनल अधिकारी, उस्मानाबाद
242 – उस्मानाबाद	सब-डिवीजनल अधिकारी, कलम्ब
243 – परान्डा	सब-डिवीजनल अधिकारी, भूम
244 – करमाला	डिप्टी कलक्टर (ईजीएस), शोलापुर
245 – माढा	सब-डिवीजनल अधिकारी, माधा डिवीजन, कुर्दुवाडी
246 – बारशी	डिप्टी कलक्टर एवं भूमि-अर्जन अधिकारी नं. 11, शोलापुर
247 – मोहोल (अ.जा.)	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन) नं. 07, मोहोल, शोलापुर
248 – शोलापुर शहर उत्तर	डिप्टी कलक्टर (भूमि-अर्जन) नं. 01, शोलापुर
249 – शोलापुर शहर मध्य	सब-डिवीजनल अधिकारी, शोलापुर डिवीजन, शोलापुर
250 – अक्कलकोट	डिप्टी कलक्टर (पुनर्वास), शोलापुर
251 – शोलापुर दक्षिण	सब-डिवीजनल अधिकारी, शोलापुर नं. 2, शोलापुर
252 – पंढरपुर	सब-डिवीजनल अधिकारी, पंढरपुर डिवीजन, पंढरपुर
253 – सांगोले	सब-डिवीजनल अधिकारी, मंगलवेढा डिवीजन, मंगलवेढा
254 – मालशिरस (अ.जा.)	सब डिवीजनल अधिकारी, मालशिरस डिवीजन, अकलुज
255 – फलटण (अ.जा.)	सब-डिवीजनल अधिकारी, फलटण
256 – वाई	सब-डिवीजनल अधिकारी, वाई
257 – कोरेगांव	सब-डिवीजनल अधिकारी, कोरेगांव
258 – माण	सब-डिवीजनल अधिकारी, माण
259 – कराड उत्तर	डिप्टी कलक्टर (राजस्व), सतारा
260 – कराड दक्षिण	सब-डिवीजनल अधिकारी, कराड
261 – पाटण	सब-डिवीजनल अधिकारी, पाटण

1	2
262 - सतारा	सब-डिवीजनल अधिकारी, सतारा
263 - दापोली	सब-डिवीजनल अधिकारी, दापोली
264 - गुहागर	सब-डिवीजनल अधिकारी, खेड
265 - चिपलुण	सब-डिवीजनल अधिकारी, चिपलुण
266 - रत्नागिरी	सब-डिवीजनल अधिकारी, रत्नागिरी
267 - राजापुर	सब-डिवीजनल अधिकारी, राजापुर
268 - कणकवली	सब-डिवीजनल अधिकारी, कणकवली
269 - कुडाल	सब-डिवीजनल अधिकारी, कुडाल
270 - सावंतवाडी	सब-डिवीजनल अधिकारी, सावंतवाडी
271 - चंद्रगड	सब-डिवीजनल अधिकारी, गडहिंग्लज
272 - राधानगरी	सब-डिवीजनल अधिकारी, अजरा-भूदरगड
273 - कागल	सब-डिवीजनल अधिकारी, राधानगरी-कागल
274 - कोल्हापुर दक्षिण	सब-डिवीजनल अधिकारी, करवीर सब डिवीजन, कोल्हापुर
275 - करवीर	डिप्टी कलेक्टर (पुनर्वास), कोल्हापुर
276 - कोल्हापुर उत्तर	डिप्टी कलेक्टर (राजस्व), कोल्हापुर
277 - शाहूवाडी	सब-डिवीजनल अधिकारी, पन्हाला
278 - हातकणंगले (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर (ईजीएस), कोल्हापुर
279 - इचलकरंजी	सब-डिवीजनल अधिकारी, इचलकरंजी
280 - शिरोल	डिप्टी कलेक्टर (भूमि-अर्जन) नं. 06, कोल्हापुर
281 - मिरज (अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर (ईजीएस), सांगली
282 - सांगली	डिप्टी कलेक्टर (भूमि-अर्जन) नं. 06, सांगली
283 - इस्लामपुर	सब-डिवीजनल अधिकारी, वालवा सब-डिवीजन, इस्लामपुर
284 - शिराला	डिप्टी कलेक्टर (पुनर्वास), सांगली

1	2
285 – पलुस कडेगांव	सब-डिवीजनल अधिकारी, कडेगांव
286 – खानापूर	सब-डिवीजनल अधिकारी, खानापूर
287 – तासगांव – कवठे महांकाल	सब-डिवीजनल अधिकारी, मिरज
288 – जत	सब-डिवीजनल अधिकारी, जत

आदेश से,

एस. के. दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road,

New Delhi 110 001, dated the 1st October, 2024
9 Ashwin, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No.434/MH-LA/2024 (1).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its Notification No. 434/MT-LA/2019 (1) dated 18th February 2019, the Election Commission of India hereby appoints, in consultation with the State Government of Maharashtra, the officers of the Government of Maharashtra as specified in column 2 of the table below as the Returning Officer of the Assembly Constituencies in the State of Maharashtra as specified in column 1 of the said table :—

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency	Returning Officer
1	2
1 – Akkalkuwa (ST)	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Taloda
2 – Shahada (ST)	Sub Divisional Officer, Shahada
3 – Nandurbar (ST)	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Nandurbar
4 – Nawapur (ST)	Deputy Collector (EGS), Nandurbar
5 – Sakri (ST)	Deputy Collector (EGS), Dhule
6 – Dhule Rural	Sub Divisional Officer, Dhule
7 – Dhule City	Deputy Collector (Land Acquisition), no.1, Dhule
8 – Sindkheda	Deputy Collector (Land Acquisition), MIP, Dhule

1	2
9 – Shirpur (ST)	Sub Divisional Officer, Shirpur
10 – Chopda (ST)	Deputy Collector (Resettlement), Jalgaon
11 – Raver	Sub Divisional Officer, Faizpur
12 – Bhusawal (SC)	Sub Divisional Officer, Bhusawal
13 – Jalgaon City	Sub Divisional Officer, Jalgaon
14 – Jalgaon Rural	Deputy Collector (Land Acquisition no.1) Upper Tapi Project (Hatnur), Jalgaon
15 – Amalner	Sub Divisional Officer, Amalner
16 – Erandol	Sub Divisional Officer, Erandol
17 – Chalisgaon	Sub Divisional Officer, Chalisgaon
18 – Pachora	Sub Divisional Officer, Pachora
19 – Jamner	Deputy Collector (EGS), Jalgaon
20 – Muktainagar	Deputy Collector (Revenue), Jalgaon
21 – Malkapur	Sub Divisional Officer, Malkapur
22 – Buldhana	Sub Divisional Officer, Buldhana
23 – Chikhli	Special Land Acquisition Officer (M.P.), Buldhana
24 – Sindkhed Raja	Sub Divisional Officer, Sindkhed Raja
25 – Mehkar (SC)	Sub Divisional Officer, Mehkar
26 – Khamgaon	Sub Divisional Officer, Khamgaon
27 – Jalgaon (Jamod)	Sub Divisional Officer, Jalgaon (Jamod)
28 – Akot	Sub Divisional Officer, Akot
29 – Balapur	Sub Divisional Officer, Balapur
30 – Akola West	Deputy Collector (Revenue), Akola
31 – Akola East	Sub Divisional Officer, Akola

1	2
32 – Murtizapur (SC)	Sub Divisional Officer, Murtizapur
33 – Risod	Sub Divisional Officer, Washim
34 – Washim (SC)	Sub Divisional Officer, Mangarulpur
35 - Karanja	Sub Divisional Officer, Karanja
36 – Dhamangaon Railway	Sub Divisional Officer, Chandur Railway
37 – Badnera	Deputy Collector (Revenue), Amravati
38 – Amravati	Sub Divisional Officer, Amravati
39 – Teosa	Sub Divisional Officer, Teosa-Bhatkuli
40 – Daryapur (SC)	Sub Divisional Officer, Daryapur
41 – Melghat (ST)	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Dharni
42 – Achalpur	Sub Divisional Officer, Achalpur
43 – Morshi	Sub Divisional Officer, Morshi
44 – Arvi	Sub Divisional Officer, Arvi
45 – Deoli	Deputy Collector (Land Acquisition), General, Wardha
46 – Hinganghat	Sub Divisional Officer, Hinganghat
47 – Wardha	Sub Divisional Officer, Wardha
48 – Katol	Sub Divisional Officer, Katol
49 – Savner	Sub Divisional Officer, Savner
50 – Hingna	Sub Divisional Officer, Nagpur Rural
51 – Umred (SC)	Sub Divisional Officer, Umred
52 – Nagpur South West	Sub Divisional Officer, Nagpur City
53 – Nagpur South	Deputy Collector (Land Acquisition), Pench Project No.2, Nagpur
54 – Nagpur East	Deputy Collector (Land Acquisition), Kanholi Nala Project, Nagpur

1	2
55 – Nagpur Central	Deputy Collector (Land Acquisition), V.I.D.C no.1, Nagpur
56 – Nagpur West	Deputy Collector (Land Acquisition), Pench Project No.1, Nagpur
57 – Nagpur North (SC)	Deputy Collector (EGS), Nagpur
58 – Kamthi	Sub Divisional Officer, Mouda
59 – Ramtek	Sub Divisional Officer, Ramtek
60 – Tumsar	Sub Divisional Officer, Tumsar
61 – Bhandara (SC)	Sub Divisional Officer, Bhandara
62 – Sakoli	Sub Divisional Officer, Sakoli
63–Arjuni Morgaon (SC)	Sub Divisional Officer, Arjuni Morgaon
64 – Tirora	Sub Divisional Officer, Tirora
65 – Gondiya	Sub Divisional Officer, Gondiya
66 – Amgaon (ST)	Sub Divisional Officer, Deori
67 – Armori (ST)	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Desaiganj
68 – Gadchiroli (ST)	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Gadchiroli
69 – Aheri (ST)	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Aheri
70 - Rajura	Sub Divisional Officer, Rajura
71 – Chandrapur (SC)	Sub Divisional Officer, Chandrapur
72 – Ballarpur	Sub Divisional Officer, Mul
73 – Brahmapuri	Sub Divisional Officer, Brahmapuri
74 – Chimur	Sub Divisional Officer, Chimur
75 – Warora	Sub Divisional Officer, Warora
76 – Wani	Sub Divisional Officer, Wani, Dist. Yavatmal
77 – Ralegaon (ST)	Sub Divisional Officer, Ralegaon

1	2
78 – Yavatmal	Sub Divisional Officer, Yavatmal
79 – Digras	Sub Divisional Officer, Darwha
80 – Arni (ST)	Sub Divisional Officer, Kelapur
81 – Pusad	Sub Divisional Officer, Pusad
82 – Umarched (SC)	Sub Divisional Officer, Umarched
83 – Kinwat	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Kinwat
84 – Hadgaon	Sub Divisional Officer, Hadgaon
85 – Bhokar	Sub Divisional Officer, Bhokar
86 – Nanded North	Deputy Collector (EGS), Nanded
87 – Nanded South	Sub Divisional Officer, Nanded
88 – Loha	Sub Divisional Officer, Kandhar
89 – Naigaon	Sub Divisional Officer, Dharmabad
90 – Deglur (SC)	Sub Divisional Officer, Biloli
91 – Mukhed	Sub Divisional Officer, Deglur
92 - Basmath	Sub Divisional Officer, Basmath
93 – Kalamnuri	Sub Divisional Officer, Kalamnuri
94 – Hingoli	Sub Divisional Officer, Hingoli
95 – Jintur	Sub Divisional Officer, Sailu
96 – Parbhani	Sub Divisional Officer, Parbhani
97 – Gangakhed	Sub Divisional Officer, Gangakhed
98 - Pathri	Sub Divisional Officer, Pathri
99 – Partur	Sub Divisional Officer, Partur
100 – Ghansawangi	Sub Divisional Officer, Ambad

1	2
101 - Jalna	Sub Divisional Officer, Jalna
102 – Badnapur (SC)	Deputy Collector and Land Acquisition Officer, (MIW), Jalna
103 – Bhokardan	Sub Divisional Officer, Bhokardan
104 – Sillod	Sub Divisional Officer, Sillod
105 – Kannad	Sub Divisional Officer, Kannad
106 – Phulambri	Special Deputy Collector & Settlement Officer, Chhatrapati Sambhajnagar Region, Chhatrapati Sambhajnagar
107 – Aurangabad Central	Sub Divisional Officer, Aurangabad
108 – Aurangabad West (SC)	Deputy Collector (EGS) Collector Office, Aurangabad
109 – Aurangabad East	Deputy Collector and Regional Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation, Aurangabad
110 – Paithan	Sub Divisional Officer, Paithan-Phulambri
111 – Gangapur	Special Land Acquisition Officer, Aurangabad
112 – Vaijapur	Sub Divisional Officer, Vaijapur
113 – Nandgaon	Deputy Collector (EGS), Nashik
114 – Malegaon Central	Sub Divisional Officer, Malegaon
115 – Malegaon Outer	Deputy Collector (Land Acquisition), no.2, Nashik
116 – Baglan (ST)	Sub Divisional Officer, Baglan
117 – Kalwan (ST)	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Kalwan Sub Division, Dist. Nashik
118 – Chandvad	Sub Divisional Officer, Chandvad
119 – Yevla	Sub Divisional Officer, Yevla
120 – Sinnar	Deputy Collector (Acquisition) Vaitarana Hydro-Electric project, Nashik
121 – Niphad	Sub Divisional Officer, Niphad
122 – Dindori (ST)	Sub Divisional Officer, Dindori
123 – Nashik East	Deputy Collector (Administration), Nashik

1	2
124 – Nashik Central	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Nashik Sub Division, Dist.Nashik
125 – Nashik West	District Resettlement Officer, Nashik
126 – Deolali (SC)	Deputy Collector and Special Land Acquisition Officer, (N.H.P), Nashik
127 – Igatpuri (ST)	Sub Divisional Officer, Igatpuri
128 – Dahanu (ST)	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Dahanu Sub Division, Dist. Palghar
129 – Vikramgad (ST)	Assistant Collector and Sub Divisional Officer, Jawhar Sub Division, Dist. Palghar
130 – Palghar (ST)	Deputy Collector, Land Acquisition Surya Project Dahanu
131 – Boisar (ST)	Sub Divisional Officer, Palghar
132 – Nalasopara	Sub Divisional Officer, Vasai
133 –Vasai	Sub Divisional Officer, Wada
134 – Bhiwandi Rural (ST)	Deputy Collector (EGS) , Collector Office, Thane
135 – Shahapur (ST)	Dy. Inspector General of Registration and Dy. Controller of Stamps, Konkan Division, Thane
136 – Bhiwandi West	Regional Officer, MIDC Thane-1, Thane
137 – Bhiwandi East	Sub Divisional Officer, Bhiwandi
138 – Kalyan West	Deputy Collector (Land Acquisition), Metro Center No. 3, Thane
139 – Murbad	Assistant Commissioner (B.C.Cell), Commissioner Office, Konkan Division, Konkan Bhavan, Navi Mumbai
140 – Ambernath (SC)	Deputy Collector, SRA-2 Thane
141 – Ulhasnagar	Sub Divisional Officer, Ulhasnagar
142 – Kalyan East	Deputy Collector and Deputy Commissioner (Estate), Kalyan-Dombivali Municipal Corporation
143 – Dombivali	Deputy Collector, SRA-1, Thane
144 – Kalyan Rural	Sub Divisional Officer, Kalyan
145 – Mira Bhayandar	Regional Officer, MIDC, Thane-2
146 – Ovala –Majiwada	Officer on Special Duty (Ceiling), Konkan Division

1	2
147 – Kopri-Pachpakhadi	Deputy Collector (Rehabilitation), Collectorate, Thane
148-Thane	Sub Divisional Officer, Thane
149 – Mumbra-Kalwa	Deputy Collector and Manager (Town Service-III), CIDCO, Belapur, Navi Mumbai
150 – Airoli	Deputy Collector (Acquisition) Konkan Division, Commissioner Office, Navi Mumbai
151 – Belapur	Deputy Collector, SRA-3 Thane
152 – Borivali	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Borivali - 1
153 – Dahisar	Competent Authority – 7, Slum Rehabilitation Authority, Mumbai
154 - Magathane	Competent Authority – 2, Slum Rehabilitation Authority, Mumbai
155 – Mulund	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Mulund
156 - Vikhroli	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Bhandup
157 – Bhandup West	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Kurla - 1
158 – Jogeshwari East	Competent Authority – 3, Slum Rehabilitation Authority, Mumbai
159 – Dindoshi	Collector of Stamps, Kurla
160 – Kandivali East	Collector of Stamps, Borivali
161 – Charkop	Competent Authority – 5, Slum Rehabilitation Authority, Mumbai
162 – Malad West	General Manager (Development), Maharashtra Industrial Development Corporation, Mumbai Suburban District
163 - Goregaon	General Manager (Land Acquisition), Maharashtra Industrial Development Corporation, Mumbai Suburban District

1	2
164 - Versova	Additional District Deputy Collector, Mumbai Suburban District
165 – Andheri West	Resident Deputy Collector (Encroachment/Removal), Western Suburbs
166 – Andheri East	Competent Authority – 6, Slum Rehabilitation Authority, Mumbai
167 – Vile Parle	Deputy Collector - 4, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority
168 - Chandivali	Sub Divisional Officer (Eastern Suburbs), Mumbai Suburban District
169 – Ghatkopar West	Competent Authority – 4, Slum Rehabilitation Authority, Mumbai
170 – Ghatkopar East	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Ghatkopar
171 – Mankhurd Shivaji Nagar	Collector of Stamp, Andheri
172 – Anushakti Nagar	Competent Authority – 8, Slum Rehabilitation Authority, Mumbai
173 – Chembur	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Chembur - 1
174 – Kurla (SC)	Deputy Collector - 2, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority
175 – Kalina	Deputy Collector (Land Acquisition) No. 7, Mumbai and Mumbai Suburban
176 – Vandre East	Special Land Acquisition Officer No. 4, Mumbai Suburban District
177 – Vandre West	Sub divisional Officer (Western Suburbs), Mumbai Suburban District
178 – Dharavi (SC)	Collector of Stamps Enforcement 2, Central Library, ground floor, Fort, Mumbai-400001
179 – Sion Koliwada	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Dharavi Zone of Mumbai City District

1	2
180 – Wadala	Resident Deputy Collector (Encroachment/Removal), Eastern Suburb, Churchgate, Mumbai-400020
181 - Mahim	Deputy Collector (Encroachment/Removal), Colaba Division, 4 th Floor, DD building, Old Custom House, S.B. Marg, Fort, Mumbai-400001
182 – Worli	Deputy Collector (Land Acquisition), Mumbai City, 3rd Floor, Old Custom House, S. B. Marg, Fort, Mumbai-400001
183 – Shivadi	Deputy Collector (General Administration) Mumbai City District, Mumbai-400001
184 – Byculla	Collector of Stamps, Mumbai City, 3rd Floor, Old Custom House, S. B. Marg, Fort, Mumbai-400001
185 – Malabar Hill	Collector of Stamps (Enforcement-I) Central library, Ground floor, Fort Mumbai-1
186 – Mumbadevi	Deputy Collector (Mumbai city), Slum Redevelopment Authority Bandra (East), Mumbai
187 – Colaba	Deputy Collector, NSEL, Mumbai
188 – Panvel	Sub Divisional Officer, Panvel
189 –Karjat	Sub Divisional Officer, Karjat
190 – Uran	Deputy Collector and Sp. Land Acquisition Officer, Metro Centre No.1, Uran
191 – Pen	Sub Divisional Officer, Pen
192 – Alibag	Sub Divisional Officer, Alibag
193 – Shrivardhan	Sub Divisional Officer, Shrivardhan
194 – Mahad	Sub Divisional Officer, Mahad
195 – Junnar	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No.4, Pune
196 – Ambegaon	Sub Divisional Officer, Junnar-Ambegaon

1	2
197 – Khed Alandi	Sub Divisional Officer, Khed (Rajgurunagar)
198 – Shirur	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No.3, Pune
199 – Daund	Sub Divisional Officer, Daund
200 – Indapur	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No.1, Pune
201 – Baramati	Sub Divisional Officer, Baramati, Sub Division Baramati
202 – Purandar	Sub Divisional Officer, Purandar
203 – Bhore	Sub Divisional Officer, Bhore
204 – Maval	Sub Divisional Officer, Maval–Mulshi
205 – Chinchwad	Deputy Commissioner, General Administration Department, Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation
206 – Pimpri (SC)	Deputy Commissioner and Competent Authority SRA-2, Pune and Pimpri-Chinchwad area, Pune
207 – Bhosari	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No.19, Pune
208 – Vadgaon Sheri	Regional Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation no. 1 (MIDC), Pune
209 – Shivajinagar	Deputy Collector and Competent Authority SRA No. 1, Pune and Pimpri Chinchwad area
210 – Kothrud	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No. 22, Pune
211 – Khadakwasala	Sub Divisional Officer, Haveli, Sub Division Pune
212 – Parvati	Deputy Collector ULC, Pune
213 – Hadapsar.	Deputy Collector & District Resettlement Officer, Pune
214 – Pune Cantonment (SC)	Deputy Collector & Special Land Acquisition Officer No.26, Pune
215 – Kasba Peth	Sub Divisional Officer, Pune, Sub Division Pune

1	2
216 – Akole (ST)	Deputy Collector (EGS), Ahmednagar
217 – Sangamner	Sub Divisional Officer, Sangamner
218 – Shirdi	Sub Divisional Officer, Shirdi
219 – Kopergaon	Special Land Acquisition Officer, no.3, Ahmednagar
220 – Shrirampur (SC)	Sub Divisional Officer, Shrirampur
221 – Nevasa	Special Land Acquisition Officer, no.14, Ahmednagar
222 – Shevgaon	Sub Divisional Officer, Pathardi
223 – Rahuri	Deputy Collector (Resettlement), Ahmednagar
224 – Parner	Sub Divisional Officer, Shrigonda-Parner
225 – Ahmednagar City	Sub Divisional Officer, Ahmednagar
226 – Shrigonda	Deputy Collector Land Acquisition , no.15, Ahmednagar
227 – Karjat Jamkhed	Sub Divisional Officer, Karjat
228 – Georai	Deputy Collector Land Acquisition Minor Irrigation, Beed
229 – Majalgaon	Sub Divisional Officer, Majalgaon
230 – Beed	Sub Divisional Officer, Beed
231 – Ashti	Sub Divisional Officer, Patoda
232 – Kaij (SC)	Sub Divisional Officer, Ambejogai
233 – Parli	Sub Divisional Officer, Parli
234 – Latur Rural	Deputy Collector (Resettlement), Collector Office, Latur
235 – Latur City	Sub Divisional Officer, Latur
236 – Ahmadpur	Sub Divisional Officer, Ahmadpur
237 – Udgir (SC)	Sub Divisional Officer, Udgir
238 – Nilanga	Sub Divisional Officer, Nilanga

1	2
239 – Ausa	Sub Divisional Officer, Ausa-Renapur
240 – Umarga (SC)	Sub Divisional Officer, Umarga
241 – Tuljapur	Sub Divisional Officer, Osmanabad
242 – Osmanabad	Sub Divisional Officer, Kalamb
243 – Paranda	Sub Divisional Officer, Bhoom
244 – Karmala	Deputy Collector (EGS), Solapur
245 – Madha	Sub Divisional Officer, Madha Division, Kurduwadi
246 – Barshi	Deputy Collector and Land Acquisition Officer No. 11, Solapur
247 – Mohol (SC)	Deputy Collector (Land Acquisition) No.07, Mohol, Solapur
248 – Solapur City North	Deputy Collector (Land Acquisition) No.01, Solapur
249 – Solapur City Central	Sub Divisional Officer, Solapur Division, Solapur
250 – Akkalkot	Deputy Collector (Resettlement), Solapur
251 – Solapur South	Sub Divisional Officer, Solapur no.2, Solapur
252 – Pandharpur	Sub Divisional Officer, Pandharpur Division, Pandharpur
253 – Sangole	Sub Divisional Officer, Mangalvedha Division, Mangalvedha
254 – Malshiras (SC)	Sub Divisional Officer, Malshiras Division, Akluj
255 – Phaltan (SC)	Sub Divisional Officer, Phaltan
256 – Wai	Sub Divisional Officer, Wai
257 – Koregaon	Sub Divisional Officer, Koregaon
258 – Man	Sub Divisional Officer, Man
259 – Karad North	Deputy Collector (Revenue), Satara
260 – Karad South	Sub Divisional Officer, Karad
261 – Patan	Sub Divisional Officer, Patan

1	2
262 – Satara	Sub Divisional Officer, Satara
263 – Dapoli	Sub Divisional Officer, Dapoli
264 – Guhagar	Sub Divisional Officer, Khed
265 – Chiplun	Sub Divisional Officer, Chiplun
266 – Ratnagiri	Sub Divisional Officer, Ratnagiri
267 – Rajapur	Sub Divisional Officer, Rajapur
268 – Kankavli	Sub Divisional Officer, Kankavali
269 – Kudal	Sub Divisional Officer, Kudal
270 – Sawantwadi	Sub Divisional Officer, Sawantwadi
271 – Chandgad	Sub Divisional Officer, Gadhinglaj
272 – Radhanagari	Sub Divisional Officer, Ajara-Bhudargad
273 – Kagal	Sub Divisional Officer, Radhanagari-Kagal
274 – Kolhapur South	Sub Divisional Officer, Karvir Sub Division, Kolhapur
275 – Karvir	Deputy Collector (Resettlement), Kolhapur
276 – Kolhapur North	Deputy Collector (Revenue), Kolhapur
277 – Shahuwadi	Sub Divisional Officer, Panhala
278 – Hatkanangle (SC)	Deputy Collector (EGS), Kolhapur
279 – Ichalkaranji	Sub Divisional Officer, Ichalkaranji
280 – Shirol	Deputy Collector (Land Acquisition) No. 06, Kolhapur
281 – Miraj (SC)	Deputy Collector (EGS), Sangli
282 – Sangli	Deputy Collector (Land Acquisition) No. 06, Sangli
283 – Islampur	Sub Divisional Officer, Walwa Sub Division, Islampur
284 – Shirala	Deputy Collector (Resettlement), Sangli

1	2
285 – Palus-Kadegaon	Sub Divisional Officer, Kadegaon
286 – Khanapur	Sub Divisional Officer, Khanapur
287 – Tasgaon – Kvathe Mahankal	Sub Divisional Officer, Miraj
288 – Jat	Sub Divisional Officer, Jat

By order,

S. K. DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

क्रमांक संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१३५/निवडणूक-२
सामान्य प्रशासन विभाग
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४.

प्रत, माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

- (१) सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई.
- (२) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर.
- (३) अतिरिक्त आयुक्त, महानगरपालिका (सर्व), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर.
- (४) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर तथा अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर.
- (५) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, (सर्व) (मुंबई शहर व उपनगर वगळता).
- (६) उप जिल्हाधिकारी तथा उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, (सर्व).
- (७) निवडणूक निर्णय अधिकारी, सर्व (जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे मार्फत).
- (८) सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, सर्व (जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे मार्फत).

म. रा. पारकर,
उप सचिव व सह निवडणूक अधिकारी,
महाराष्ट्र शासन.